

**\*@SHAJAHANPURPOL\***

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य 02.08.2022\***

**\*थाना खुदागंज पुलिस ने 02 किलोग्राम गाँजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।\***

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री अमित चौरसिया क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व में थाना खुदागंज द्वारा मादक पदार्थ तस्करो को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 01.08.22 की रात्रि 10.13 बजे थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चिरचिरा पुलिया से मादक पदार्थ तस्कर सुमित को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त—\***

सुमित कुमार पुत्र बिरेन्द्र पाल निवासी लंगुरा थाना भमौरा जनपद बरेली

**\*बरामदगी\***

1- 02 किलोग्राम गांजा।

**\*पंजीकृत अभियोग:—\***

1- मु0अ0स0- 274/22 धारा 8/20 N.D.P.S Act

**\*पूछताछ का विवरण:-\***

अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र बिरेन्द्र पाल निवासी लंगुरा थाना भमौरा जनपद बरेली से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने गांव के ही व्यक्तियों से लेकर गाँजा आसपास के जनपद शाहजहाँपुर, पीलीभीत में अन्य पार्टियों को देता हूँ। जिसके एवज में मुझे 2 हजार रुपये मिल जाते हैं। पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

**\*पुलिस पार्टी का विवरण\***

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।
3. हे0का0 240 मौ0 सलीम थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।
4. कां0 2691 सचिन थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 2783 सुनील कुमार थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।